

अमर उजाला

नकली नोटों समेत पंजाब के युवक को पकड़ा, 32,600 रुपये बरामद

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरवाई (ऊना) Updated Sun, 14 Jul 2019 06:33 PM IST

[Home](#) > [Himachal Pradesh](#) > [Shimla](#) > Man Arrested With Thirty Two Thousand Rupee Fake Currency In Una Himachal Pradesh



सांकेतिक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के धार्मिक क्षेत्र चिंतपूर्णी के नजदीक जौड़बड़ में एक युवक से टैरेस पुलिस ने 32 हजार 600 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। युवक जौड़बड़ में एक हार्डवेयर की दुकान पर दो हजार रुपये का नकली नोट चलाकर भागने की फिराक में था। दुकानदार को शक होने पर मामला पुलिस के संज्ञान में आया, जिसके बाद युवक को दबोच लिया गया। तलाशी लेने पर उससे 32 हजार 600 रुपये की नकली करेंसी बरामद हुई है।

जानकारी के अनुसार शनिवार रात के समय चिंतपूर्णी की तरफ से एक बाइक सवार टैरेस की तरफ आया। इस युवक ने जौड़बड़ में हार्डवेयर की दुकान के आगे बाइक खड़ी की और दुकान से सौ-सौ रुपये के दो ताले खरीदे। भुगतान करने के लिए उसने दुकानदार को दो हजार रुपये का नोट दिया। बदले में दुकानदार ने इसे 1800 रुपये लौटा दिए। युवक पैसे लेकर बाइक से टैरेस की तरफ चला गया।

दुकानदार को युवक के दो हजार के नोट के नकली होने का शक हुआ। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने अपने शक को दूर करने के लिए आसपास अन्य लोगों को भी नोट दिखाया। सभी ने नोट नकली होने की बात कही। हार्डवेयर के दुकानदार और स्थानीय लोगों ने पहले पुलिस को सूचित किया और फिर युवक का पीछा किया। बाद में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने तलवाड़ा रोड पर दबोचा

चौकी प्रभारी एसआई गुरबखश सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को रवाना कर दिया गया। टीम ने तलवाड़ा रोड पर टैरेस के रास्ते इस युवक को बाइक के साथ काबू कर लिया। तलाशी लेने पर युवक की पैंट की जेब से दो हजार के 16 और दो सौ के तीन नकली नोट निकले। युवक की पहचान सुमित चौहान (34), निवासी हाउस नंबर 19 मीठापुर कॉलोनी, सिंह गुरुद्वारा जालंधर, पंजाब के रूप में हुई है।

पुलिस तलाश रही शातिर का नेटवर्क

पुलिस अब आरोपी युवक के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि युवक के साथ इसके कोई और साथी तो नहीं थे। कहीं जौड़बड़ के अलावा किसी अन्य जगह भी नकली नोट खपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। गौरतलब है कि इससे पूर्व चिंतपूर्णी में भी नकली नोटों की करेंसी के साथ चिंतपूर्णी पुलिस ने दो महिलाओं और दो युवकों को पकड़ा था।

Source: <https://www.amarujala.com/shimla/man-arrested-with-thirty-two-thousand-rupee-fake-currency-in-una-himachal-pradesh?pageId=1>